

अधिसूचना

सीबीएसई-टेरी 'ग्रीन ओलम्पियाड'-2014

ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान (टेरी) 1999 से भारत एवं विश्व के अन्य देशों में कक्षा VIII से X के विद्यार्थियों के लिए ग्रीन ओलम्पियाड परियोजना का आयोजन कर रहा है जो विद्यालयों के आपसी जुड़ाव की आवश्यकता को संबोधित करता है। यह परीक्षा टेरी की 'Educating Youth for Sustainable Development' विभाग द्वारा आयोजित की जाती है। विद्यार्थियों के पर्यावरणीय लब्धि की जाँच करने के लिए ओलम्पियाड परीक्षा में प्रतिभागिता एक सर्वोत्तम अवसर है।

इस ओलम्पियाड में प्रश्न विद्यालयी पाठ्यचर्या से सीधे जुड़े हुए पर्यावरण मुद्दों से संबंधित होते हैं जो विद्यार्थियों की पर्यावरण संबंधी संवेदनशीलता का आंकलन करते हैं। टेरी का यह प्रयास एक ओर बोर्ड द्वारा जारी किए गए वर्तमान विद्यालय पाठ्यचर्या से और दूसरी ओर बोर्ड द्वारा प्रारंभ की गई सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन की भावना से जोड़ता है।

सीबीएसई-टेरी 'ग्रीन ओलम्पियाड'-2014 की प्रमुख विशेषताएँ निम्न प्रकार से हैं-

- पात्रता : कक्षा VIII से X के विद्यार्थियों के लिए
- माध्यम : अंग्रेजी अथवा हिन्दी दोनों में लिया जा सकता है
- विषय : 'हमारे प्राकृतिक संसाधन'
- दिनांक : 3 सितम्बर, 2014 से 15 अक्टूबर, 2014 तक प्रत्येक विद्यालय सुविधानुसार एक तिथि का चुनाव कर सकता है। अपने पंजीकृत विद्यार्थियों के लिए विद्यालय ही केन्द्र रहेगा। परीक्षा के लिए विद्यालय द्वारा पंजीकरण के लिए न्यूनतम 20 विद्यार्थियों का होना अनिवार्य है।
- प्रमाण पत्र : सभी प्रतिभागी पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा समर्थित प्रतिभागिता प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे।
- अवधि : 2 घंटे
- प्रश्नों की संख्या : 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न (कोई नकारात्मक अंक नहीं) पूछे जाएंगे।
- पंजीकरण शुल्क : 75 रुपये प्रति विद्यार्थी
(विद्यार्थियों से व्यक्तिगत आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जाएंगे)

पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2014 है। पूर्ण आवेदन पत्र बैंक ड्राफ्ट के साथ टेरी के कार्यालय में निम्न पते पर पहुँच जाने चाहिएँ:

- (आवेदन पत्र एवं बैंक ड्राफ्ट केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नहीं भेजे जाएँ)

पर्यावरणीय शिक्षा एवं जागरूकता क्षेत्र
ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान (टेरी)
दरबारी सेठ ब्लॉक, भारत हैबिटेट सेंटर कॉम्प्लेक्स
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

- सम्पर्क विवरण- फोन नम्बर: 011-24682100 अथवा 41504900 फैक्स 011-246882144 अथवा 24682145
ई-मेल go@teri.res.in वेबसाइट <http://www.teriin.org/olympiad>

'ग्रीन ओलम्पियाड-2014' हेतु आवेदन पत्र इस सूचना के साथ संलग्नित है एवं इसे परियोजना वेबसाइट www.teriin.org/olympiad से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

आप सभी से निवेदन है कि सीबीएसई-टेरी 'ग्रीन ओलम्पियाड-2014' प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करें।

संलग्नक : तृतीय सीबीएसई-टेरी 'ग्रीन ओलम्पियाड-2014' प्रतियोगिता में पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र